



-प्रेस नोट-

थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

दिनांक:- 03.04.2021

**थाना हापुड देहात पुलिस/ जनपदीय टीम-बी की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 05 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 130 पेटी अवैध शराब (कीमत करीब 10 रूपये ) मय 01 पिकअप, 01 महिन्द्रा मैराजो व 07 मोबाईल फोन आदि बरामद ।**

### कार्यवाही:-

जनपद हापुड पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में अपराध एवं शांतिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना हापुड देहात पुलिस/जनपदीय टीम-बी ने चैकिंग के दौरान 05 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 130 पेटी गैर-प्रान्तीय अंग्रेजी शराब (कीमत करीब 10 लाख रू0) मय एक पिकअप नं0 UP37 T 3874, एक महिन्द्रा मैराजो व 07 मोबाईल फोन बरामद किये गये। बरामदा पिकअप गाडी पर भी **भारतीय जन औषधि परियोजना व कोविड-19** चारो तरफ लिखा है तथा बोनट पर हिन्दी में लाल अक्षरो में **भारत सरकार** लिखा है

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग पिकअप पर भारतीय जन औषधि परियोजना के बोर्ड तथा भारत सरकार इसलिये लिखे है जिससे पुलिस हम लोगो पर शक न करें और हम लोग बे-रोक टोक गन्तव्य स्थान तक पहुँचा सके, हम लोग हरियाणा से शराब लेकर बिहार, यूपी कई बार पहुँचा चुके है। महिन्द्रा मैराजो गाडी को आगे इसलिये रखते है कि अगर पुलिस की सख्त चैकिंग हो रही होती है तो पिकअप गाडी को चैकिंग होने तक सडक किनारे खडी कर लेते है और चैकिंग बन्द होने के बाद गन्तव्य को चलते है। यह शराब आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में मतदाताओं को लुभाने के लिये ले जायी जा रही थी। पकडी गयी गाडी अभियुक्त अजय पुत्र विक्रम की है। साथी अभियुक्त अजय पुत्र विक्रम पकडे जाने से पहले ही शराब उतारने की जगह देखने हेतु गाडी से उतर कर चला गया था और उसका मोबाइल गाडी मे ही रह गया था। जगह देखने के बाद हम लोगों को सूचना करते, फिर हम लोग वही पहुँचकर शराब उतार देते ।

उपरोक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुड देहात पर मु0अ0सं0 129/21 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व धारा 420,467,468,471,414,269,270 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों/राज्यों से भी जानकारी की जा रही है।**

### बरामदगी का विवरण-

- 1-130 पेटी अवैध शराब (हरियाणा मार्का) जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रूपये
- 2- 01 पिकअप गाडी रजि0 न0 UP37 T 3874
- 2- 01 हिन्द्रा मैराजो कार
- 4- 07 अदद मोबाईल फोन
- 5- फर्जी आर सी व प्रधानमन्त्री भारतीय जन औषधि परियोजना का पत्र

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आलम पुत्र आरिफ नि0 ग्राम नवादा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल ।
- 2-फहीम पुत्र कय्यूम नि0 ग्राम नवादा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल ।
- 3-सुमित पुत्र इन्द्र बजाज नि0 691 पटेल नगर अर्बन इस्टेट हिसार हाल हेतराम पार्क कालोनी हिसार हरियाणा ।
- 4-राजीव पुत्र विक्रम सिंह नि0 कनिया कल्याणपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 5-जगमीत पुत्र ब्रजपाल नि0 दयालपुर थाना सदर जनपद फरीदाबाद हरियाणा ।

### फरार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र विक्रम नि0 कनिया कल्याणपुर थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

### फरार अभियुक्त आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 256/94 धारा 394,396,302,34 भादवि थाना छायासा जनपद फरीदाबाद हरियाणा ।
- 2-मु0अ0सं0 134/12 धारा 302,307,120बी भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 3-मु0अ0सं0 135/12 धारा 147,148,149,504,506,427,436,511,336,332,341,379,307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 4-मु0अ0सं0 250/12 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 5-मु0अ0सं0 251/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 6-मु0अ0सं0 177/13 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 7-मु0अ0सं0 124/17 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।
- 8-मु0अ0सं0 129/21 धारा 63/72 आबकारी अधि0 व 420,467,468,471,414,269,270 भादवि थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कमल कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
- 2-है0का0 536 प्रवीण कुमार थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
- 3-है0का0 221 ऋषिपाल सिंह थाना हापुड देहात जिला हापुड ।
- 4-का0 495 सुरेन्द्र सिंह थाना हापुड देहात जनपद हापुड ।
- 5-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।
- 6-है0का0 162 संजय यादव जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।
- 7-है0का0 488 अनुज कुमार जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।
- 8-है0का0 487 सचिन त्यागी जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।
- 9-का0 373 कुलदीप जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।
- 10-का0 445 हरेन्द्र जनपदीय टीम बी जनपद हापुड ।